



प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## एण्टीरोमियो स्ववाड द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 17.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन- 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अजय अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान अवैध शराब बरामदगी, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम के अनुपालन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बस स्टैण्ड ग्राम गौरहारी से 01 नफर अभियुक्त पप्पू उर्फ बलराम राजपूत पुत्र बहादुर राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद झोले में 20 अदद क्वार्टर(देशी पौवा) अवैध शराब बरामद की गयी। उक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 280/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का0 अनूप रत्ना
3. का0 कुलदीप थाना चरखारी जनपद महोबा

### गिरफ्तार अभियुक्त-

पप्पू उर्फ बलराम राजपूत पुत्र बहादुर राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन महोबा व फायर स्टेशन महोबा में की गयी पूजा-अर्चना..

आज दिनांक 17.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन महोबा के शस्त्रागार में प्रतिसार निरीक्षक श्री सैन्यजीत सिंह द्वारा भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा-अर्चना की गयी।

इसी क्रम में फायर स्टेशन महोबा में प्रभारी फायर स्टेशन महोबा के प्रांगण में श्री देवेश कुमार पाण्डेय द्वारा दमकल वाहनों व उपकरणों का पूजन कर भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा-अर्चना की गयी।

इस दौरान आर्मीरर पुलिस लाइन व फायर स्टेशन महोबा में नियुक्त समस्त अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर.के. गौतम के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी चरखारी के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित व वारण्टी गिरफ्तार अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्रीनगर दिनेश तिवारी द्वारा गठित टीम उ०नि० सुबाषचन्द्र तिवारी द्वारा मुखबिर खास सूचना पर 01 नफर वारण्टी अभियुक्त 1. रामकिशोर उर्फ सैबू यादव पुत्र गिरजा यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर महोबा सम्बन्धित मु०न० 2296/20 अ०स० 779/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोबा 2.शिवचरन पुत्र मिड़वा अहिरवार उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर महोबा को सम्बन्धित मु०न० 1447/20 एनसीआर न० 24/17 धारा 323 भादवि को ग्राम बिलरही से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त को मान० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सुबाषचन्द्र तिवारी 2. का० रामनाथ गौतम

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामकिशोर उर्फ सैबू यादव पुत्र गिरजा यादव उम्र 45 वर्ष
2. शिवचरन पुत्र मिड़वा अहिरवार उम्र करीब 62 वर्ष निवासी गण ग्राम बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 17.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया।

बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा गार्ड को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी।

ध्यातव्य है कि अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम द्वारा निरन्तर बैंकों पर जाकर संदिग्धों व असामाजिक तत्वों की चेकिंग तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत बेलाताल में संचालित पीआरवी वाहन के कर्मचारियों व सुरक्षा उपकरणों को चेक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन महोबा के मैस का किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश..

आज दिनांक 17.09.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा सांयकाल में पुलिस लाइन अवस्थित मैस का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा भोजनालय की साफ-सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा भोजनालय में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा मैस स्टोर में खाद्य सामग्री के रख रखाव व साफ-सफाई का जायजा लिया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा स्वयं भोजन ग्रहण कर भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया तथा वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से खाने की गुणवत्ता के सम्बन्ध में वार्ता की गयी व मैस प्रबंधक को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ-साथ खाने की गुणवत्ता/शुद्धता में और अधिक सुधार लाने के दिशा-निर्देश दिए गये।

निरीक्षण के दौरान कुछ जगह खामियां मिलने पर प्रतिसार निरीक्षक को उनके शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



## पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **17.09.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के नेतृत्व में व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **76** वाहनों के ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक – 17.09.2022

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस